

एमएसटीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

MSTC LIMITED

(A Govt of India Enterprise)
CIN: L27320WB1964GOI026211



MSTC/CS/SE/375

21st October, 2022

1. The Dy. Manager (Listing)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001.
(Scrip Code: 542597)

2. The Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai 400 051 (Scrip Code: MSTCLTD)

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication

In terms of Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of Chairman's Statement for 57th Annual General Meeting of MSTC Limited, published in the newspapers viz, "The Economic Times" (English), "Prabhat Khabar" (Hindi) and "Aajkaal" (Bengali) dated 21st October, 2022.

The aforesaid information is also available on the website of the company at https://www.mstcindia.co.in/content/Publication.aspx.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For MSTC Limited

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary & Compliance Officer

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. सीएफ 18/2 मार्ग स. 175 एक्शन एरिया 1 सी न्यूटाऊन कोलकाता 700156 प.ब.

Regd. Office: Plot No. CF18/2, Street No. 175, Action Area 1C, New Town, Kolkata-700156 W.B.



Dear Stakeholders

It gives me immense pleasure to present to you Annual Report and Accounts of your Company for year ended 31st March, 2022.

In the last 24 months we have been tested by Covid-19,

In the last 24 months we have been tested by Covid-19, geographical tension, supply chain disruption etc. However with our spirit of unfalling grid we overcame those challenges and achieved greater heights. I am deligited to state that MSTC team had responded with great resilience and adaptability, which resulted in our life of the outstanding year of annual growth and in coorded highest ever PAT and PBT in the history for the Company, MSTC has addressed the challenges to remarkable results in the year 2021-22.

We are hopeful that the growth and advancement will continue to help your company to further improve its position in the coming years.

Economic and Business Environment.

nomice and Bit Liness Environment.

Incial year 2021-22 was a highly volable and challenging one. The cascading impact of Covid 19 and its ramification on people. Society and economy have made every one vinerable. We are still mourning the loss of our friends and colleagues who succumbed to the pandemic and we resolve to work harder to achieve the dreams of our fixends and take the company to greater heights.

The Indian economy witnessed real GDP expansion in 2021-22 GDP expansion in 2021-22 GDP contracting in 2020-21. Almost all indicators show that the economic impact of the "second wave in Q1 was much smaller than that opperienced during the full lockdown phase

rienced during the full lockdown phase

the last year, a number of policy tables have been undertaken to drive movation and technology adoption in the e-commerce sector which would significantly expand occess to fallent, increase job receibne, and cataput the sector to the next level of continuing investments of find in rolling out fiber network for 405G will help boost E-commerce in India.

in 2020-21 even though the health impact was

heip boost E-commerce market is expected to grow to approx. US\$ 100 billion by 2025 from US\$ 450 billion as of 2020. Through its 'Digital Inda's campaign, the Government of India is aiming to create a trilion-dellar online economy by 2025. The year 2021-22 has showed that the importance of B28 e-commerce has increased more than ever. This is directly entailed from the fact that looks have become a helded for more fact when ever.

India has become a hotbed for e-commerce activities

with businesses increasingly relying on B2B firms/ enablers to avail their products pan-India Growth in B2B

ecommerce had an impact on the overall economy as it reduces inefficiencies and ensure better quality and pricing for everyone present in the value chain.

Considering the constraints faced during the financia year, the team has worked relentlessly with

the determination, dedication and desire to excel which resulted in

remarkable performance by the

remarkable performance by the Company backed by staggering numbers. MSTC was able to achieve growth of around 23% in Revenue from operations net of purchases over last year, total imcome more by 30% and PBT rose by around 90% PAT rose by around 90% PAT rose by around such as almost doubled year on year basis recording highest ever profit figures for the company.

During the year under raview

PROFIT

AFTER TAX (7 in Lakhs

Performance that Speaks for Itself

Chairman's Statement for the 57th Annual General Meeting of MSTC

Surinder Kumar Gupta, CMD

⁶⁶As Charles Darwin said It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change

 Has crossed INR 1,348,04 bit in terms of value of goods.

 transacted through its marketing and e-commerce verticals which is 4,51% increase over the value of goods traded in 2020-21. Vehicle Recycling

STA

Total e-Commerce income has increased from 7202.77 crores to 7 264.09 crores, Total e-Commerce business has

recorded an increase of around 32.91% during the financial year: · Profit after Tax during the financial

year was ₹ 200 88 crores compared to ₹ 191.07 crores in the previous financial year and Profit Belore Tax during the financial year was ₹ 220.08 crores compare to ₹114.68 crores in the s financial year riding mainly on the e-commerce contribution

Peid Interim Dividend of ₹ 8.50 por shares. In addition to that Board has also recommended payment of final dividend of ₹ 4.40 per shares which will be paid after shareholders' approval in the ensuing AGM.

MSTC Advantage

MSTC plays a very important role as a service provider in e-commerce and is a market leader in this sector. Our strength lies in our ability to convert any business activity conducted through brick and mortar method and/or in conducted integral back and notice include and/or any other method to online activity. It has the distinction serving majority of Central/PSUs/State Gov Departments and large Private organisations! providing transparent, fair & seamless e-Commen services to its clients.

MSTC has always been availing first mover advantage in

Subsidiary Company

Ferro Scrap Nigam Limited is a 100% Subsidiary of the Company, During the year the sobsidiary has performed very well and made record profit. During the year ended 31st March 2022, the Profit after Tax of FSNL was ₹ 40.36 crores which is 77.42 % more than the previous year.

Joint Venture for Stiredding Plant with MMRPL

As you are aware, our Company through MMRPL
As you are aware, our Company through MMRPL
Grayed into the recycling sector through JV, has set up
India's first authorsed Collection & Dismantling centre at
Greater Noida and later at Chennal and Pune. It intends
to set up more Collection & Dismantling centres across
India, You will be pleased to note that MMRPL has
overcame the pre-traction period and started
showcasing the results. The Company has posted its first
profit figures of ₹ 0.56 crores for the year ended 31st
March 2022.
When we felly when the

When we talk about the consolidated performance, MSTC has once again created history as profit before tax has increased remarkably by 71% and profit after tax increased by around 76%.

Friends, your continued trust, encouragement and support drive us to improve our performance. We are committed to participate in improving the livefihood of communities and societies at large.

Operational Excellence

As you know your company is a major standalone e-Commerce Company in the country. The area includes selling agency business, e-sales of raw materials, minerals and other commodities, e-procurement etc.

Customized e-commerce solutions have emerged as major innovellve business model of MSTC. Major operational activities undertaken by the a company are as lollows:

Tollows:

Conducted the bidding for Commercial Coal Mines auction during 2021-22 with 4 tranches offered out of which 25 were successfully allotted during 2021-22.

- Developed an e-bidding portal for Export & Import of Petroleum products for ONGC and its Group Companies.
- Developed an auction portal on behalf of Custodian of Enemy Property for India for auction of Enemy Properties.

Developed a-Bidding platform for Hindustan Oil Exploration Co. Ltd. For off take of 1.25 MMSCD of Natural Gas from Dinok Gas field. The bidding was a grand success for the natural gas industry in the Northeest. The highest premium received was 15 per MMBTU and the entire quantity of gas was successfully allocated.

Successfully conducted Sale of Gypsum through s-Auction for the first time. Future Outlook

MSTC is looking at giving more value added services to existing and future clients in terms of logistics, valuation consultancy and technology driven assistance for decision making.

Looking ahead your company sees immense opportunities for growth riding the new technology cycle, powered by the belief that its solution centric approach makes it the preferred transformation partner within its

Minerals & Mineral Blocks

MSTC is a nominated agency for allocation of coal blocks and all major mineral blocks in the country brough its very customized e-Commerce portal. The minor initiated blocks affocation is also happening through MSTC's e-Commerce portal in the various states in the country. The minerals which are mined from these blocks hold huge potential for e-saile.

e-Retail Software

MSTC has carved a niche for itself by developing a unique exim portal for Oil marketing companies and in the process MSTC has developed required expertise for providing unique solutions to the government and private organizations particularly the MSME. This sector holds a great opportunity and potential for MSTC in future. Terretting Private Companies:

MSTC is casting more focus on the untapped e-Commerce business from the private sector and in this stride MSTC has signed big ticket agreement with Rel Industries, Indus Tower, Tata F L&T, Jindal Group, Vedanta of name a few.

name a few

Due to lingaring impact of
Covid-19 in many parts of the
World, increase in interest
artes, crisis in Utraine,
disruption of supply
chains, indian economy
hinges on a deficate
balance amid volatile market
and rising inflation weighing
heavily on near-term growth
prospocts, it is falt that current financial
arg will remain volatile and organisation

prespects. It is felt that current financial year will remain votable and organisation will need to develop smart ways to counter the same. However, I finity believe that digital transformation is an integral part and play a key role in the development of organisation in the neer future. We are also taking various steps to ensure that we remain well placed to take the opportunity with both hands as and when the same comes in our path.

Opportunities

Positunitio

E-Commerce: MSTC has emerged as a major standatione e-commerce service provider in the country. With its foray into new and diverse business verticals including the flagship projects of the Govi. of India, it has an immense potential to grow multifold in this arena.

MSTC is gertenavoring to

MSTC is endeavoring to harness the untapped potential in the Private Sector also, beside trying to retain the Govt. and PSU Recycling Sector: MSTC through PPP model via

recycling sector. Matic wild in the initiatives in point venture route is spearheading the initiatives in ELV sector, its pivotal role in setting up recycling plant in the automobile sector, e-waste and solid waste management sector which is a suntise sector.

MSTC is exploring possibilities for entering into more areas in recycling field as a step towards circular

i) GeM portal – reducing oppor -tunity in exposure: With the Govt's directive to use the GeM portal for purchases, the business in expocuroment of common goods and servicas will take a hit. The scope of work in e-procurement gets a bit downsized, as major percentage of any Corporation's business is spent on procurement.

spent on procurement

of goods and services

- Trading business: As a policy matter, MSTC has decided to play safe in the traditional trading business due to the extent of risk involved.
- business due to the extent of risk involved.

 iii) Cyber attacks Risks of cyber-attacks are forever a threat on account of the first-evolving reture of the threat. In addition to impact on business operations, a security breach could result in reputational damage, penalties and legal and financial liabilities.

 J. Business model Technologies are changing the customers approach, creating new classes of customers and thus creating a challenge on organisation to keep themselves updated and continuously develop a model which will suit the customers need.

Investor Services

Investol Services

The Company's shares have been dematerialized in both the depositionies, i.e., NSDL and CDSL. 43 Shareholders out of 84,191 (approx.) shareholders are holding shares in physical mode. I would like to request to the remaining shareholders to get their shares dematerialized so that the bonus shares lying in the "Unclaimad Bonus Suspense Account" can be transferred to the demat account of the respective shareholders. Further, this will also enable the shareholders to receive the dividend on time.

Corporate Governance

Corporate Government Survey Stratish highest standards of Corporate Governance practices. The Company is complying with Government Guidelines on Corporate Governance framed by the Department of Public Enterprises (DPE).

Department of Public Enterprises (DPE)
for CPSEs, and SEBI (Listing
Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 in letter
and spint Your company is
continuously working for the
optimum benefit of its
stake-holders and has
furnished the company has
furnished the company has
fulfill these responsibilities. The Company has fulfill these responsibilities. The Company has established systems &

established systems & propedures to ensure that its Board of Directors is well informed about the policies of the Company to enable them to discharge their responsibilities and to enhance the overall value of all stakeholders. Your Company is making best afforts to adapt and comply with the Corporate Soromanic guidelines' nerms to the extent within its control.

Accolades & Recognitions

During the year your company has received 3rd Ispai Rajbhasha Samman-2021 for the best performance in the field of official language implementation among Steel Public Sector Undertaking.

Human Resources

Notice of the most important resource and has been conducting various employee benefit programs. The industrial relations have remained cordial and participative all along. We have opened offices in many cities in India so that we can reach out to our principals and customers easily and generate more business.

Acknowledgement Twould like to place on record my grahtude to the Hon ble
Union Minister for Steel, Homble Minister of State for
Steel, Secretary (Steel), Additional Secretary and FA
(Steel), Additional Secretary Steel and other
officials of the Ministry of Steel, Defence
Ministry, Cold Ministry, Mining Ministry
Civil Aviation, Petroleum, Natural Gas
Ministry and various other Central
Government Ministricis, all State
Government Ministry Could in

Government Ministries, all State
Governments, various Contral
and State Public Sector
Undertakings, private
companies, the bankers,
our principals and others for
their valuable assistance and
guidance extended to the Company
during the year, I also place on record
the appreciation of the sincere efforts
made by vanous employees at all levels. Lateo made by various employees at all level. I also

made by various employees at all level. I also express my grattude to all stakeholders, customers and suppliers for the frust and confidence reposed by them on your Company year after year and assum you that we shall continue to create more value for our stakeholders.

Jai Hindl



Surinder Kumar Gunta Chairman and Managing Director



New Town, Kolkata – 700156, W.B. Phone : 91-33-2340-0000 website: www.mstcindia.co.in | www.mstcecommerce.com

CIN: L27320WB1964GOI026211

This PDF was originally uploade To Teligram channel_LBS Newspaper platform (https://t.me/LBSNEWSPAPER) Subscribe now to get this edition before anyone elself Backup channel:@LBSNEWSPAPER

प्रदर्शन जो अभिव्यक्त करे उपलब्धियाँ

एमएसटी सी की 57वीं वार्षिक आम बैठक के लिए अध्यक्षीय संबोधन



औसा कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जीवित रहनेवाले प्रजाति सबसे मजबूत नहीं है, न ही सबसे बुद्धिमान है, बल्कि वो जो परिवर्तन के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है 🥍

अपने मार्केटिंग और ई-कॉमर्स वर्टिकल के मध्यम से लंग देन किए गए माल के मूल्य के मामले में 1348.04 अधिक्ष्यन भारतीय समये को पार कर गई है जो कि वर्ष. 2020-21 में कारोबार किए गए सामानों के मूल्य वाहन पुनर्चक्रण रो 4 51% अधिक है।

₹ 749.56 करोड़ की कल आय ई-कॉमर्स जार र 202.77 करोड़ रो 🔪 र 264.00 करोड़ तक बढ़

 वितीय वर्ष के दौरान वृ ई-कॉमर्स व्यवसाय में लगभग 32.91% की वृद्धि वर्ज की गई है। वितीय वर्ष के यौरान कर पश्चात लाग पिछले

विसीय वर्ष में र 101.07 करोड़ की दलना में र 200.08 करोड़ है ओर विछले वित्तीय वर्ष में र 114.68 करोड़ की तलना में वितीय वर्ष के दौरान कर पर्व लान र 220.08 करोड़ रहा है जो कि गुरुव रूप से ई-कॉगर्स यागदान पर निर्भर रहा है।

♦ ₹ 8.50 प्रति शेयर के अवस्थि लगाश का भुगवान किया। इसके अलावा दोई ने ₹ 4.40 प्रति क्षेयर के अंतिम लामांश के भुगतान की भी सिफारिश की है जिसका गुपतान आगामी एजीएम ने शेयरधारकों की मंजरी के बाद किया जाएगा।

एनएसटीसी के फायदे

प्रिय हिल्हासको

31 मार्च, 2022 को रामाप्त हुए वर्ग के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक

रिपोर्ट और लंखाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो

गिएले 24 गहीनों में कोविट-19, भौगोलिक तनाव, आपूर्वि श्रृंखला में कवधान जादि द्वारा हमें परखा गया है। हालांकि अपनी शदूट धर्य की

मावना के साथ हमने उन घुनींदीयों को पार किया और अधिक उज्यादयों का हासिल किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनएसटीसी टीम ने

बसे लचीलेपन और अनुकृतन बागता के साथ इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया

दी थी, जिसके परिणामस्यक्त्र वार्षिक वृद्धि के उत्कृष्ट वर्ष में से एक और

कपनी के इतिहास में सबसे उच्चतम पीएटी और पीबीटी रिकॉर्ड किया

गया। वर्ष 2021-22 में एमएसटीसी ने चल्लेखनीय परिणामो को हासिल

हमें उपनीट है कि आने वाले दवों में विकास और उत्नति आपकी कंपनी को

वितीय वर्ष 2021-22 बेहद अस्थिर और चुनीतीपूर्ण था।

कोविड 19 के विनाशकारी प्रमाव ने मानव समाज और

अर्थव्यवस्था पर दूरगांगी प्रभाव के कारण सभी की 🔉 असुरक्षित कर दिय हम अभी भी अपने दोरतों और

सकला लंते हैं।

सहकर्मियों के खोने का शोक मना रहे हैं

जिन्होंने महामारी के कारण दम तोड़ दिया

और हम अपने दोस्तों के सपनी की

मारतीय अर्थत्यवस्था ने 2020-21 ने

संकृतन के बाद वर्ष 2021-22 में वास्तविक

जीठीपी विस्तार देखा। लगमग सभी संकेतक यह

बताते हैं कि पहली तिमाही में "बूचरी लहर" हेतु

आईक प्रमात वर्ष 2020-21 में पूर्ण ऑकडाएन चरण के

अपनाने क लिए कई नीतिगत पहले की गई हैं, जो प्रतिना

s पहुंच का विस्तार, रोजगार सृजन में वृद्धि और इस क्षेत्र को विकास और नवादार के अगल स्तर

तक पहुंचायेंगी। दूरसचार ऑपरेटरो और मारत रारकार द्वारा 4जी/5जी के लिए फाइवर

नेटवर्क को चालू करने में निस्तर निवेश ते भारत में ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन

भारतीय इं-कॉमर्स बाजार

के वर्ष 2020 में लगभग

46.2 विविधन अमेरिकी डॉलर

ते बढ़कर वर्ष 2025 तक 100

विविधन अमेरिकी डॉलर होने की जनीद

है। अपने हिजिटल इंडिया अभियान के गाध्यम

OF STATESTANDAY STAN

भारत सरकार वर्ष 2025 तक देश की एक

द्वितयन डॉलर की ऑनलाइन अर्थस्यवस्था बनाने

लक्ष्य लंकर चल रही है। वर्ष 2021-22 ने दिखा दिया कि

श्री2वी हं-कॉमर्स का महत्त पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यह सीधे ताँर

पर हुस तथ्य से जुड़ा है कि भारत ई-कॉमर्स का केंद्र वन गया है और पूरे

मारत में अपने उत्पादों का लाम उताने के लिए व्यवसायों के साथ यतिविधियां तेजी से बी2वी कर्नो/समर्थकों पर निर्मर हैं।बी2बी ई कॉमर्स में

वृद्धि का समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रमाव पटा क्योंकि यह अक्षमताओं को कम करता है और मूल्य पूंखला में मीजूद सभी इकाइयों के लिए वेहतर गुणवत्ता

सनीक्षाधीन वर्ष के दौरान

देने में मदद मिलेगी।

दौरान अनुभव की तुलना में बहुत कम था, मले ही इसका स्वास्थ्य

विषयं वर्ष के टांगन है कींगर्स क्षेत्र में नताबार और प्रारांगिकी की

हाशिल करने और कंपनी को और

अधिक ऊदाइयों पर ले जाने के

करने के लिए वुनौतियों का समाधान किया है।

आर्थिक और व्यावसायिक वाताबरण

पर प्रशाव अधिक गंभीर था।

अपनी रिव्यति में और सुवार करने में मदद करते रहंगे।

एमएसटीसी की ई कॉमर्स में एक सेवा प्रदाता के रूप में एक महत्वपूर्ण मिका रही है एवं इस क्षेत्र में इसने माजार में एक अग्रणी के रूप में अपर एटवान बनाई है। मीतिक उपस्थिति और/या किसी अन्य विधि द्वारा संशासित किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप का ऑनलाइन कार्यकलापों में परिवर्तित करने की हमारी बागता ही हमारी प्रमुख शक्ति है। अधिकांश केंद्र[सार्वजनिक सता ज्हाम[राज्य सरकार के विभाग] और निजी क्षेत्र के सरकानों के अपने लग्भोक्साओं की पारवर्शी निग्नह एवं निर्वाध है कीमर्स संयायें प्रयान करने में इसकी अपनी विशिष्टता रही है।

एमएशटीसी ने अपने व्यवसाय क्षेत्रों में हमेशा ही पहला कदम उठाते हुए राम प्राप्त किया है।

सहायक कपनी

फेरो रकैप निगम लिमिटड कंपनी की 100% सहायक कंपनी है। वर्ष के दौरान सहायक कपनी का निष्पादन सराहनीय रहा है और इसने रिकॉर्ड लाम कमाया है। 31 मार्च, 2022 को रामान्त को के दोरान प का कर पश्चात लाग र 40 36 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तलना ने 77.42 प्रतिशत आंधेक है।

एमएमआरबीएल के साथ ब्रेडिंग प्लांट के लिए संयुक्त उद्यन

जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी ने एमएमआस्पीएल के मध्यन से संयक्त उदान के जरिये रिसाइविलंग (पनवंक्रण) क्षेत्र में प्रवेश किया, ग्रेटर संयुक्त रक्षम के जरिय रिसंडाविकम (पुन्तक्रेश) द्वान में अवश किया, ग्रेटर मिएडा में मारत का पहला अडीकृत संवक्षण और निराकस्य केंद्र रक्षिय किया और बाद में बच्चे लीट पूर्व में में पूरा केंद्र रक्षणित किये गये। यह पूरे भारत में अधिक संयक्षण और निराकरण केंद्र स्थापित करने का इसवा स्थाती है।आपके यह व्यानकर प्रसानता होगी कि एमएमआरपीएल ने प्रीन हन अवधि को पार कर लिया है और इसने परिधाम दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.56 करोड़ के अपने लाम के आंकड़े प्रदर्शित किए है।

जब हम समेकित निष्पादन के बारे में बात करते हैं. तो एमएसटीसी ने एव बार फिर इतिहास रच दिया है क्योंके इसक कर गर्व लाग में उल्लेखनीय रूप से 71% और कर पश्चाव् लाभ में लगभग 76% की वृद्धि हुई है।

मित्रो, आपका निरंतर विश्वास, प्रोत्साहन और समर्थन हमें अपने निष्पाद को देहतर वनामें के बिए प्रेरित करना है। हम को पेमाने पर समदायों और समाजों की आजीविका में सुवार लाने में अपनी मागीदारी के लिए प्रतिबद्ध

जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कंपनी देश में एक प्रमुख स्टेंडअलोन ई-कॉमर्स कंपनी है! इस क्षेत्र में बिक्री एजेरी व्यवसाय, कर्ल माल, खनिजो ओर अन्य वस्तुओं की ई-विक्री, ई-खरीद आदि शामित हैं। अनुकृतित ई-कॉमर्स रामायान

 एनमी प्रांपर्टीज की नीलामी के लिए मारत के लिए एनमी ध्रांपर्टी के अभिक्षक की ओर से एक मीलागी पोर्टल विकसित किया गया।

 हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्जोरेशन कपनी तिमिटेंड क लिए डिसेंक गैस फील्ड से 1.25 एमएमएससीडी प्राकृतिक गैस के ऑफ टेक के लिए ई-बिडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। पूर्वीतर में प्रकृतिक गैस उत्योग के लिए बाली एक बड़ी सफलता थी। 1 \$ प्रति एमएमबीटीयू प्राप्त तव्यतम प्रीमियम था और गैस की परी गाजा सफलतापर्वक आवंटित

 पहली बार ई नीलामी कं माध्यन से जिप्सम की बिक्री सफलतापूर्वक आयोजित की गही।

माबी दृष्टिकोण

एमएसटीसी गांजूदा और महिष्य के ग्राहकों को लॉजिस्टिक्स, मूल्याकन परामर्श और निर्णय लेने के लिए प्रोद्योगिक प्रेरित रह्मायता के नामले में अधिक मृत्य वर्गित सवाए देने का प्रथास कर रही है।

आपकी कंपनी अपने संगाधान केंद्रित दृष्टिकोण के विकास के आधार पर नई रेक्नोलोंजी की साइकिल की सवारी करते हुए प्रगति की असीमित संमायनाए तेख रही है, जिसने इसे इसके उपमोक्ताओं के लिए उनका पसदीदा परिवर्तन सहयोगी बनाया है।

छनिज और छनिज कॉक

एमएसटीसी अवने बहुत ही अनुकृतित ई-कॉमर्स पोर्टल के भाग्यम से देश में कोयते के ब्लॉकों और सभी प्रमुख खनिज ब्लॉकों क आवंटन के लिए एक नामित एजेंसी हैं। तेश के विभिन्न राज्य में एमएसटीसी के ई-कॉनर्स पोर्टल क माज्यम से लघु खनिज ब्लॉको का जावटन भी हो रहा है। इन ब्लॉकों से खनन किए जाने वाले खनिजों में ईनविक्री की अपार संमावनाएं

एमएसटीसी ने तेल विषणन कंपनियों के लिए एक अद्वितीय प्रविजन पोर्टल विकरित करके अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इस प्रक्रिया है एनएसटीसी ने सरकारी और निजी क्षेत्र के सगतनो, विशेष रूप से एनएसएमई को अद्वितीय रामाधान प्रदान करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता विकसित की है। यह क्षेत्र भविष्य में एमएसटीसी के लिए एक महान अवसर और क्षमता रखता है।

निजी कंपनियों को लक्ष्य बनाना

एमएसटीसी निजी क्षेत्र द्वारा अग्रयका ई-कॉमर्स व्यवसाय पर अधिक ध्यान कंद्रित कर रही है और इस प्रगति में एमएसटीसी ने रिलार्थस इंडस्टी, इंडस टॉकर, टाटा पावर, एल एंड टी, जिवल ग्रुप, वेदांता आदि जैसे कुछ बड़ नामों के

साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हरस्वधार किए है। दिनिया के कई हिस्सों में काविड-19 के दीर्घकालीन प्रमाद, व्याल दरों में वृद्धि यूकेन में संकट, आपूर्वि शृंखलाओं में व्यवधान के कारण, मारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर वाला-के बीच एक गाजुक संतुलन पर टिकी हुई है और बढ़ती -नीला**र्धी** मुद्रारकीति निकट अवधि के विकास की समादनाओं पर भारी यह रही है। यह महरपूरा किया गया है कि चालू वितीय वर्ष प्रस्थित रहेगा और संगठन को इसका मुकावला करने के लिए स्मार्ट तरीके विकसित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, मेरा दृढ़ विश्वास है कि

जिलितान परिवर्तन एक अभिन्न अंग है और निकट भविष्य में विकास में यह गहत्वपूर्ण भूगिका निमायेगा। हम यह सुनिश्रिबट करने के लिए भी विभिन्न कदम उठा रहे हैं कि जब भी हमारे रास्ते में अवसर आए, हम दोनो हाथों से उस अपसर का लाम उठाने के लिए अन्ही बरह से वंगार रहे।

1ई होड

 हं-कामर्सः एमएसटीसी देश में एक प्रमुख स्टैड-अलीन ई-कॉमर्स सेवा प्रदास क रूप में उगरी है। मास्त सरकार की प्रमुख परियोजनाओं सहित नए और विविध व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में इसके प्रवेश के साथ, इस में कई गुना बढ़ने की दशमें आधार संभावनाएं है।

ii) एमएसटीसी सरकार और पीएसम् कारोबार को बनाए रखने की कोशिश के अभावा निजी क्षेत्र में भी अप्रयुक्त क्षानता क दोहन करने का पुरजीर प्रमास

iii) पुनर्वकण क्षेत्र : संयुक्त उद्यम मार्ग के शरा एमएसटीसी पीपीपी गॉडल के माध्यम से ईएलबी क्षेत्र में पहल का नेतृत्व कर रही है ऑटोगोबाउल क्षेत्र ई-कचरा और तोस अपृश्चित प्रबंधन क्षेत्र में रिसाइकिलिंग प्लॉट

र शासित। करने में इसकी महत्वपूर्ण मुमिका है जो एक उपरता हुआ

iv) एमएसटीसी सर्कलर (बक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक करम के रूप में, रिसाइकिलिंग क्षेत्र में और अधिक क्षेत्र में प्रवेश करने की रांभावनाएं तत्साण रही है।

- जीईएम पोर्टल-जोखिम में अवसार कम करनाः खरीद के लिए जीईएम मोटेल का उपयोग करने के सरकार के निर्देश के साथ, सामान्य वस्तुओं आंच सेवाओं की ई-स्बरीद में अधराय प्रमावित होगा। ई-प्रोक्योरमंट मे काम का दायरा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि किसी मी नि क व्यवसाय का बड़ा प्रतिशत माल और संवाओं की खरीद पर खर्च किया जाता है।
- ii) टेडिंग व्यवसाय- एक नीतिगत नामले के रूप में, एनएसटीसी पारपरिक ट्रेडिंग व्यवसाय में जिखिम की सीमा के कारण सुरक्षित कारोबार करने का निर्णय विसा है।
- iii) साहवर हंगले- इस प्रकार के संकट की दिनो-दिन बढ़ती आशका की ेखते हुए, साइबर समले के जीडिया हमेशा के लिए एक खतरा है। व्यावसाधिक संशासन पर प्रमान के उत्ताना, सुरक्षा उल्लंधन के परिणामस्त्ररूप प्रतिक्षा को मूकसान, चंड जीर कानूनी और वित्तीय देनदारियां उत्पन्न हो सकती है।
- iv) व्यवसाय गाँउल आजकल प्रौद्योगिकियां ग्राहको के दृष्टिकोण को बदल रही है, ग्राहकों के नए वर्ग बना रही है और इस प्रकार संगठन पर खुद को अपडेट रखने और प्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप एक गाँछल विकसित करने के लिए एक चुनीती पैदा कर रही है।

निवेशक सेवाएं

कंपनी के शेयरों को दांनों डिपॉजिटरी गानी एनएसर्डाएल और सीडीएसएल में अमीतिकीकृत कर दिया गया है। लगनग 64191 शेयरचारको में सं 43 शेयरचारक भीतिक रूप में शेयर वारण कर रहे हैं। मैं शेष शेमरचारकों से अनुरोध करना बाहता हूँ कि वे अपने शेमरों को अभौतिकीकृत करवाएं ताकि "दावारहित बोनस संस्पेस खाल" में बड़े हुए बोनस श्रेयरों को संबंधित श्रयस्थारकों के डीमेंट खाते में स्थानातरित किया जा सके । इसके अलावा, इससे शेयरुवारक समय पर लामांश प्राप्त करने में भी रक्षाम हो पायेंग।

निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी हमेशा निगमित अधिशासन जम्मासों के उच्चतम मानकों का का प्रयास करती है। कंगनी सीपीएसई के लिए सार्वजनिक विमाग (डीपीई) द्वारा तंथार किए गए नियमित रान पर सरकारी दिशानिर्देशी और संबो (सूचीयन बाव्यता एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 का अनुपालन कर रही है। अपकी कंपनी अपने हिल्हारकों के अधिकतम लाभ के लिए लगातार काम कर रही है और इन दायित्वों को

पूरा करने के लिए अपने निगमित राचालन को इसके अनस्तप दाला है। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं कि उसके निदेशक मंडल को नीतियों के कार में अवधी तरह से जानकारी है ताकि वे अपने दाविस्तों का निर्वाहन कर सके और सभी हितकारकों के समग्र मूल्य को बढ़ाने में सक्षम रहें।

आपकी कंपनी बदलते विधि-विधानों को अपनाने और उनका अनुपालन करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है और अपने नियंत्रण की सीमा तक कॉरपोरेट गवर्नेस दिशानिवेंशी/मानदंडों का पालन करना जारी रखती है।

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीब राजमाधा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वश्रंष्ठ प्रदर्शन के लिए वीरारा इरपात राजभाषा राम्यान-2021 प्राप्त हवा है।

बायकी कंपनी ने हमेशा से दी अपने मानव संस्थान को सबसे महत्वपुण संसाधन माना है और विभिन्न कर्मचारी लामदावी कार्यक्रमी का संच करती रही है। हमारे आंदोमिक संवंध हमेशा सीहार्तपूर्ण और सहजामी रहे हैं। हमने कई शहरों में कार्यालय खोले हैं, ताकि हम अपने प्रिसिपल्स और ग्राहको तक आसानी सं पहच सके और अधिक व्यवसाय कर सके।

मैं माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इरगात), अपर समित और आर्थिक सलाहकार (इरगात), अपर एकपाल और प्रस्मात रहा। मंत्रालय कोयला मंत्रालय खनन मंत्रालय

गगरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, प्रकृतिक गेरा मंत्रालय और केंद्र सरकार के विभिन्न गंजालयों के अन्य अधिकारियों, सभी राज्य सरकारों, विभिन्न केंद्रीय पोर्टल और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों, वैकर, शेयरवारक हमारे विसिध्ल और अन्य व्यक्तियों के प्रति अपना आमार व्यक्त करना चाहता हू कि वर्ष के तौरान कंपनी को उन्होंने बहमत्य सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया। में सभी स्तरों पर विभिन्न कर्मधारियो द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासी की भी सराहना करता हूं। मैं रामी हितवारकों को आपकी कंपनी पर साल-दर-माल उनके द्वारा दिखाए मरास और विश्वास के लिए आमार व्यवत करता ह ऑर आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने हितवारकों के

तिए बेहतर मूल्य राजन हेतु अपने प्रयास निरंतर जारी रखेंगे।






(भारत सरकार का उपक्रम) नं. सीएफ-18/2, स्ट्रीट नं. 175, एक्सन एरिया 1सी न्यू टाउन, कोलकाता - 700 156, प. ब. फोन : 91-33-2340-0000

वेबसाइट : www.mstcindia.co.in | www.mstcecommerce.com सीआईपन : L27320WB1964GOI026211











বিশ্ব অংশীদানন

প্রসন্ধ বেশ করছি।

৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে শের ইওরা শছরের জন্য আপন্যদের কে

বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব আগনাদের কাছে পেশ করতে গিয়ো খবই

বিগত ২৪ মানে আন্ত্রা তেতিভ-১৯, ভৌগোলক অস্থিতে, সরবরাহ

ব্যবস্থা বাহিত হওয়া ইতাদি পরীক্ষাসমূহের সম্মুখীন হয়েছি। যদিও

অন্মান্তনৰ অনুয়া মনোন্তানেৰ মাৰা আমাৰা সেইসৰ প্ৰতিকলতা অতিক্ৰম

মঙ্গে জানাতে চাই যে এমএসটিমি টিম বাপেক সহনশীলতা ও নমনীয়তার

সঙ্গে কাঞ করেছে কলেই বর্ষিক বৃদ্ধির দিক পেকে এটি অনাতম সের

একটি বছর হয়ে উঠাত পোরাছ এবং কোম্পানির ইতিহাসে সর্বাধিক কর

পরবর্তী ও কর পূর্ববর্তী মুনাফার মজির গড়া সম্ভব হয়েছে। ২০২১ ২২

พรัสเซ แนคที่วิท หมด ชโออกอเสอร์ อิเทศเบต จอกจะต

আমি আশাবাদী যে এই বন্ধি ও অগ্রথাতি আগমী বছর ওলিতে আপনাদের

২০২১-২২ অর্থনাটি একটি অত্যন্ত অন্বিৰ ও প্রতিকূলতাপূর্ণবছর: মনুষ,

সমাজ ও অর্থনীতির ওপর কেভিড-১৯ ও তার ব্যাপ্তির যে

কিংকওঁবানিমৃত প্রভাব, তা সকলকেই ভুক্তভোগী করে তুলেছে ততিমারির দক্ষন যে সব বন্ধু ও সহকর্মীদের হারিয়েছি তার জনা অমরা আজও মর্মাহত এবং আমরা সেই

পরিস্থিতি ছিল বেশ ভয়াবহ।

বন্ধদের স্বংগ্রক সার্থক করতে ও কোম্পানিকে

পরিপ্রমের পর্যকেই কেছে নিয়েছি।

উচ্চতর অবস্থানে পৌছে দিতে আরও

২০২১-২২ অর্থনরে ভারতের অর্থনীতি বাস্তবিক জিভিনি

সংক্রমারণের সার্জা হতে পেরেছে। প্রায় সমস্ত

স্চকই বল্ছে যে ২০২০-২১ এব भागमार्थ काळाडाडास शहरीत कुलसास

প্রথম কৈমসিকের "ছিতীয় চেউ" এর

আর্থিক প্রভাব বেশ কম ছিল, যদিও স্বান্তা

বিগত বছৰ যাবত, ই-কফাৰ্স সেষ্ট্ৰৰে সজনশীলতা ও

নেওয়া হয়েছে যা প্রাসঞ্চিকভাবেই প্রতিভার বিকাশ,

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিষর তৈরি করবে এবং এই

क्तरता

মেইরটিকে বন্ধি ও উপ্লবদীর পরবর্তী পর্যায়ে

উন্নীত করতে: ৪জি/৫জি-ন জনা ফাইবাব

নেটগুৱার্থ বিভানোর কেন্দ্রে টেলিকম অপারেটরসমূহ ও চারত সরকারের ু ধারাবাহিক বিনিয়োগ, ভারতে ই

शुभासद्भ

আশা করা যায় ভারতে ই-কমার্সের বাজার ২০২০ সংগ্রের

৪৬ ২ বিলিয়ন মার্কিন ভলার থেকে বেভে

২০২৫ সালের মধ্যে আনুমানিক ১০০ বিভিন্ন

द्रावित उत्पाद (लीकार्य: आवस अनकान सार

'ভিডিউল ইভিয়া' ক্যাপেইনের মাধ্যম ২০২৫ সালের

মধ্যে একটি টিলয়ন-ডলার অনুলাইন অর্থনীতি গতে তোলার

ক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে: ২০২১-২২ অর্থবর্ষে দেখা গেছে বিএবি ই-কমার্সের

গুরুত্ব আগের যে কোনো বারের তুলনার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সবই মরাসরি

ইন্দিত করে যে যেসমন্ত করম তাদের সমগ্রী সারা ভারত বালী পৌছে দেবার জন্য বিথবি জনসি/এনাবলার্স - এর প্রতি আর ও বেশি আস্থাশীল

হয়েছ তাদের ই-কমার্স কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ভারতবর্গ আজ প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে: সমগ্র অধনীতিতই বিথবি ই-কমার্সের একটা প্রতাব ছিল,

প্রকৌশল গ্রহণ করার উচ্চেশো বেশ কিছু নীতিগত উদ্যোগ

বেং আর ও উর্নাতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলবেং।

আধিক ও বাৰসায়িক পরিমগুল

করে উচ্চতর অবস্থান অর্জন করতে পেরেছি। জামি অভাস্থ চা

কর্মসম্পাদন নিজেই নিজের পরিচয়

এম এস টি সি-র ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে চেয়ারম্যানের বিবৃতি

সুরিন্দর কুমার গুপ্তা, সিএমডি

⁶⁶ চার্লস ডারউইন যেমন বলেছিলেন-সৰচেয়ে বলশালী প্রজাতিও বাঁচতে পারে না, সবচেয়ে বৃদ্ধিমানও নয়, তারাই পারে যারা পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মানিয়ে নিতে সক্ষম।

পরিমাণ লাভের নছিল গড়েছে। এই আর্থিক বছরে

आश्चात (काम्बर्धाते : विश्वन क्रवा है क्रमर्ज आर्थिकारमव মাধ্যমে লেমদেন করা প্রের মধ্যের পরিপ্রেফিতে আইকনভার ারপ্রাক্ষতে আইএনআর ১.৬৪৮.০৪ বিরুদ অভিক্রম করেছে যা ২০২০-২১ সালে ব্যবসা করা প্রের মূল্যের তলনায় ৪.৫১% বঙি থাত ৭৪৯.৫৬ কোটি টাক। খামের নজির গড়েছে:

মোট ই কমার্স আয় ২০২,৭৭ কোটি
 কো ধেকে ২৬৪,০০ কোটি টাকা পর্যদ্ধ

এই ভাবিত বছরে মেট ই কমার্স ব্যবদা প্রায় ৩২.১১৯ বৃদ্ধির দক্ষির পায়েছে.

প্রধানত ই-ক্যাপের অবন্যানর ভিত্তিতেই এই ঘার্থিক বছরে ক প্রথমত হ-ক্ষান্তের অবলনে । ছা ছাতের এই আমাক বছরে কর কবে হুটী ফুলায় ছিল ২০০.০৮ কেটি টাবা য়া নিয়ত আর্থিক বছরে হিন ১০১.০৭ কেটি টাবা এবং এই আর্থিক বছরে কর-পূর্ণকর্তী মুনায়া ছি ২২০.০৮ কেটি টাবা যা বিগত আর্থিক বছরে ছিল ১১৪.৬৮ কেটি টাবা। শোলা প্রতি ৮.৫০ উলোর অন্তর্গতী অভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। সেই
সাধে বোর্ড শোলা প্রতি ৪.৪০ উলোর চুড়ান্ত অভ্যাংশ প্রদানকা সুপারিশ
করেছে যা আলার্মি অফিনামে শোলান্তেশভারাকের অনুমোদনের পর প্রদান

এমএনটিনি-ৰ সবিধা

ভেশ্বিফল

विभावदिः

এমএমটিটা উ-ৰমাৰ্সে পৰিমেৰা প্ৰদানকাৰী হিসাবে একটি অভাস্ত চক্ৰ-ছপূৰ্ব চুমিকা প্ৰান্ধন কৰে এবং এটি এই সেউবেক বাজাৰে একটি শীৰ্ষ নী সংস্থা। ঠিক আন্ত মর্টার পছতিতে এবং/ অথবা অনা জেনে। -গছতিতে পরিচালিত মেকোনো ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে অনলাইন কার্যকলাপে কালাওরিত করার ক্ষমতার মধ্যে আমধ্যের শক্তি নিহিত রয়েছে। ক্লারেন্টদেরকে কছে, ন্যায় এবং নির্বাচিন্ন ই-কমার্স পরিযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে এই সংস্থা কেন্দ্রীয়/পিএসইউ/রাজ্য সরকারি বিভাগসমুহ এবং বড় বেসরকারি সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে পরিয়েবা ধেওয়ার বিশেষক আর্মন করেছে।

ন্যন্তসটিসি সর্বদ্য ভার ধাবসায়িক ক্ষেত্তে অন্তর্দী ভূমিকা পালনোর সুবিধা

সহায়ক কোশ্বামি

ফেরো স্করণ দিলম লিমিটেড এই কোম্পানির একটি ১০০% সহরে নছে। এই বছরোগী সহালে সংস্থাটি খুব ডালো বাজ করেছে এবং মুনাফার নজির ওড়েছে। ৩১ মাঠ, ২০০২-এ সমাস্ত বছরে, এফএসএনএল-এর কর-প্রবর্তী মুনাফা ছিল ৪০.৩৬ কেন্টি টাকা যা অপের বছরের ওলনায় ৭৭ ৪২% বেশি।

এফএমআরপিএল -এর সাধে লেভিং গ্লাক্টের জনা যৌধ উদ্দোশ

আপনারা ভারেন যে, এম এম আর পি এল এর সঙ্গে আমাদের কোম্পানি যৌগ উদ্যোগের মাধামে পুনর্বাবহারখোগ্য সেরীরে প্রবেশ করে ভারতের প্রথম অনুমোদিত সংগ্রহ ও ডাডাই কেন্দ্র গড়ে তলেছে, প্রথমে গ্রেটার ন্তমান প্রস্কৃতি কর্মান কর্ম ও জারার কেবা নিজু কুল্ফ ক্রমেন কর্মার সাহার করে। সংক্রমান পরে চেন্নাই আল নুলকের এটি ভারত বালী মানার সহারে ও ভাঙাই কেবা স্থাপন করতে আইটা সাপদারা ভোগে সুন্দি হকেন যে এমএমজ্যারিপত্তিস প্রাক ট্রাকেন্সন কালু অভিক্রমা করেছে এবং ফুলাকন প্রদর্শন করতে শুক করেছে: কোম্পানিটি ৩১ মার্চ, ২০২২-এ পরিসমাপ্ত বছরের জন্য তার প্রথম লডের পরিসংখ্যান সেধিয়েছে ০.৫৬ কোটি

একভিও কর্মান্তমতা সম্পর্কে কথা বলতে পেলে উল্লেখ করতে হয় যে অমএমটিনি আবার ইতিহান তৈরি করেছে, ভারণ কর পূর্ববর্তী মূনাদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়াছে ৭১৩ এবং কর-পরবর্তী মূনাদা বৃদ্ধি

দিএসভার

বন্ধুরা, আপনাদের অবিরাম আস্থা, উৎসাহ এবা ধ্যার্থন আমাদের কর্মক্ষয়তা বাড়াতে উৎসাহিত করে। আমরা বৃহত্তরভাবে ক্ষনগোষী ও ন্মান্তের জীবনবারের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে প্রতিপ্রবিত্তনদ পরিচালনগত উৎকর্ম

আপনারা জানেন। যে আপনালের কোম্পানি দেশের একটি

বাণিজ্যিক কয়লা খনি নিক ২০২১-২২ সম্রল এটি ধাপ সহ বিভিং পরিচালনা করা হয়েছে: ১০০টিরও বেশি কয়লা খনি আদার করা হয়েছিল যার মধ্যে ২৫টি সফলভাবে

◆ ৩.২নজিদি এবং তার গ্রন্থ কোম্পানিগুলির জন পেট্রেলিয়াম পায় প্রানি ও আমদানির জন্ম একটি ই বিভিঃ পোর্টাল তৈরি করা ধরেছে;

 শক্ত সম্পত্তির নিলামের জন্য ভারতের জন্য শক্ত সম্পত্তির চিন্দ্রাদেশ্বর পক্ষে একটি দিলায় পোর্টাল তৈরি করা হরেছে।

 दिखुन्छाम याताल अनात्थात्तनाम त्कान्थानि लिभिएमेएका कमा है-विकि। প্রাটকর্ম তেরি করেছে যাতে ভিত্তেক গ্রাম কিন্তু পেকে ১,২৫ MMSCD প্রাকৃতিক পালে নেওয়া যান। এই বিভিন্ন উপ্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক পালে নিয়ের ফন্য একটি দুর্নান্থ সাক্ষণ হিসেবে পরিবর্গিত হয়েছে। ঘৃষ্টাত সর্বোচ্চ লিমিয়াম ছিল MMHTL! গতি ১১ এবং সম্পূর্ণ পরিমাণ গ্যাস সংগ্রভারে বরান্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথমবারের মতে। ই-নিলামের মাধ্যমে ভিপ্সামের বিজ্ঞা সফলভাবে

इत्यादशका

এমএসটিসি নর্তমান ও ভবিষাৎ প্রস্থাকাগতের নিদ্ধান্ত প্রহারে সুবিধার্থে সরবরাহ, মুদ্দানিকাগণ সাজোন্ত পরামার্শ ও প্রযুক্তিনিওর সহায়াভার ক্ষেত্রে উদ্যাতমানের পরিযোগ দেওয়ার লক্ষে দৃষ্টি নিবজ নেশেছে।

ভবিদ্যতের দিকে তাকিলে আপনার প্রতিষ্ঠান নরা প্রযুক্তির উপর তর করে বছির এক বিপাল সম্ভাবনা দেখতে পাছে এই বিশ্বাসের শক্তিতে যে প্রতিষ্ঠানের সমাধান কেন্দ্রিক পদ্ধার কারণে গ্রাহকগণের কাছে পরিবর্তনের সহযোগী হিসাবে এটি পছক্ষের স্থান নিশ্চিত করেছে।

দিনাবেল ও নিসাবেল ব্লক

এমএসটিমি তার বিশেষ উপযোগী ই-কমার্স পোর্টালের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন কোল ব্লক ও প্রধান মিনারেল ব্লক চলির বর্ণনের জন্য মনোনীত নজেনি। দেশের বিভিন্ন নাজে এমন্যাটিদিন ই-কমার্স গোটাজের মাধ্যমে ছোট মিনারেল ব্রক্তজির ধর্টনত সংঘটিত হয়। এই ব্রক্তজি থেকে সংগ্রীত মিনারেলের ই- সেল-এর ক্ষেত্রে বিপল সম্ভাবনা আছে।

হ-বিটেল সম্ভূ প্রয়ার

তৈল বিপ্রণাকারী সংস্থাওলির জন্য এক অননা এগ্নিম পোর্টাল উদ্ভাবনের মধ্যমে এমএসটিসি নিজের একটি বিশেষ স্থান তৈরি করে নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠায়সরকার ও বেসরকারিপ্রতিষ্ঠানওলিকে, প্রধানতঃ এমএসএমই অভিত্রীয় সমাধান দেওয়ার পথে এমএসএমই প্রয়োজনীয় দক্ষতা থর্জন করেছে। এই ক্ষেত্রটি ভবিষাতে এমএসটিসি-র জনা এক অসাধানে সুযোগ ও সম্ভাবনার দরভা খুলে নিতে পারে

প্রাইভেই কোল্পানি ভলিকে টার্ডেট করা

এমএসটিসি সেই সমস্ত গ্রাইভেট সেক্টরের ই-কমার্স ব্যবসার উপর বেশি ওরু ই নিছে যেসব ক্ষেত্রে এখনও সেচাবে কাজ করা হয়নি। এই สมสหาธิรัส ইভাসিট্র, ইন্দাস টাওয়ার, পাওয়ার, এল আন্ত টি, ফিলান হাওলার, জন আতার, ইফার্নি হেপ, ভেদান্ত ইফার্নি কোম্পানির সঙ্গে হাতে হাত নিনিয়েকাজ করছে।

পৃথিধীর নানা স্থানে করোনা ভাইনামের দীর্ঘস্থারী প্রভাবের জন্ম সুনের হার থাড়তে থাকা, ইউজেনের সামগ্রিক বিপরতা, সরববাহকারী সংস্থাতলিক ননা সমসা, ইত্যাদি নানাধিধ কারণে ভারতীয় অংশীতির সামাবস্থা मिलानित प्राथम् । अहित दावात कवर निवान-स्माणि रहित

সন্তাননার উপর ভারতীর অর্থনীতির সামালছা নির্ভরশীল। মুদ্রাক্ষীতিও বালেক হারেছ হয়েছে। চলতি বছরে অর্থনীতির টালবারানা সামলানোর জন্ম কোপানিওলির নতুন নতুন উদ্বাধনী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। অনুর ভবিষ্ণতে ভিডিটালাইডেশনই সমস্ত কোপ্পানির ভাগানির্ধারণ করতে চণেছে। তাই আগামীনিনের সমস্ত স্থোগ উশাক্ত হাতে চহন করার জনা যা যা পদক্ষেত আয়াসের প্রাক্ষ নে ভয়। সম্মর, সেইসর পদামাপ নে ওয়া হয়েছ।

겨용(43)

দেশের একমাত্র স্বতন্ত্র ই-ক্যার্স পরিয়েব सकारी নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে (4)(3)(5) ভারত 22110/pite श्रुकश्चर्याले मह स्टूब्स जावर रेविडिकामाः स्वयंत्रातिक स्कटन . প্রবেশের সাথে সাথে এই অফনে বছওণ বৃদ্ধির অপাব সম্ভাবনা सरामा ।

সরকরি সংস্থা ও পিএসইউ - এর কাভগুলিকে ধরে রাখার মঙ্গে সঙ্গে nguspillik পাইছেট সেউত গলিব সংগ্ৰন্ত কাল কল বচেন্টা করেছে।

in) পুনর্বাবহার ক্ষেত্র : নির্দিধি মডেলে ইঞ্চাভি সেস্টারের সঙ্গে এমএমটিসি মতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলিকে উল্লাবন করার প্রচেষ্টা ছে। ঘটোনোবাইগ, ই বর্জা এবং কঠিন বর্জা ব্যবস্থাপনা সেইবে পুনৰ্য্বহাবকাৰী ক্লাউ স্থাপনের আগারেও এমএসটিদি নতুন

ic) সার্কুলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য এমএসটিটি পুনৰ্বাৰহায়ের মহানা ক্ষেত্রগুলিতে অধ্বেহণ করার

\$105815F প্রতিবছকত সযোগ হাস করা: কেনাকাটার জন্ম জি ই এম পোর্টাল ব্যবহার করার জন্য সরকারের নির্দেশের সাথে, নাধানণ পদা ও পরিকেবাওলির হবে: ই-জন্ম কাজের পরিধি কিছুটা কমানো হয়, কারণ যে কোনো কপোরেশনের

ব্যবসার বড় শতাংশ পদ্ম ও পরিবেধা সংগ্রহে বয়ে হয়।

 ট্রেডিং বাবসা: একটি নীতিগত বিষয় হিসাবে, ঐতিহাগত টেডিং বাৰসাৰ ক্ষেত্ৰে কুঁকিব বিষয়টি জড়িত থাকায় এমএনটিসি নিঃ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাইবার আক্রমণ – এর ৪০ত বিকাশমান চরিত্রের কারণে সাইবার মাক্রমণের কুঁকি চিরকালের জন্মই একটি ধমকি। বাবদায়িক ক্রিয়াকগাপের উপর প্রভাব ছাড়াও, একটি নিরাপতা লঙ্গনের ফলে মুনামাত স্কতি, ভারিমানা এবা আইনি ও আর্থিক নারবছতা হতে

iv) ব্যবসায়িক মড়েল - প্রযুক্তি ক্রমাগত প্রাহক্ষের দৃষ্টিভবি পরিবর্তন করতে, আহকদের নতুন শ্রেণি তৈরি করতে এবং এইভাবে সংস্থাতনির কাছে একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে আহকদের প্রয়োজনানুষারী নিজেবেরকে আপড়েন্ড করার এবং ক্রমানত একটি

बिनिर्माणकारी भविरुघवा

মিভিএসএল-এ ভিমেটেরিয়ালাইজ করা হয়েছে। ২৪,১৯১ (প্রায়) শোরতোভারের মধ্যে ৪৩ জন শোরতোভার ফিজিকাল শোরার ধারণ করছেন। অমি অবশিষ্ট শোরতোভারদের অনুরোধ করতে চাই তানের শোলব চলিকে ভিয়েটেরিয়ালাইভ করার জন্ম যাতে "আনকেইমভ বোনাস সাসপেশ আকাউন্ট'-এ থাকা বোনাস শেয়ারওনি সংক্ষি শেলরতেল্ডারদের ডিমাটে আকেউক্টে স্থানান্তর করা যায়। তাহাডা, এর । চলে শোয়ারহোক্ষাররা সময় মতে। লাভাংশ পেতে খারবেন।

करभी(वर्ड श्रेडर्वज কর্গোরেট গভর্মেশ অনুশীলনের সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য সাল প্রচেষ্ট । কোম্পানিটি CPSC এর জন্য ডিপার্টনেও সাং পার্নলিক এন্টারপ্রাইজেস (INI) দারা প্রণীত কর্পেনেট গছনেন্দি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা এবং SEIII

, 6550s বাধাবাধকাতা এবং 25743 প্রয়োজনীয়তা। রোওগেশন, ২০১৫ অফরে অঞ্চরে মেনে চলছে। আপনার কোপানি ক্রমালত তার অংশীদারগণের সর্বোত্তম সুবিধার জনা কাজ করছে এবং এইভাবে এই দায়িত্বওলি পাদন

tradier sea - কলার জন্য তার কর্পেনেট মাইলেম অসাভিত্য আচুরগ্রিধির পরিবর্তন श्रीवेदाईस করেছে: পরিচালন গর্মদ লোম্পানির নীতিগুলি সম্পর্কে ভাগোভাবে অবগত রয়েছে কি না তা নিশ্তিত করার জন্য কোম্পানি তার বাবহা ও পদ্ধতিসমূহ তৈরি করেছে যাতে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং অংশীনারগণে

সার্বিক মলা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। আপন্যদের কোম্পানি পরিবর্তিত আইনওলির সাথে খাপ গাউয়ে নেওয়ার এবং সেওলি মেনে চলার জন্য সর্বোন্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে বাছে এবং কর্পেটনেট গভর্মেপ โมวร์โดสต/โภยพระพ์สิส/พยา พละพ

প্রশাস্থা এবং দ্বীকৃত্তি

নদের কোম্পানি স্টিল পাবলিক সেক্টর আন্তারটেকিং-এর মধ্যে সরকারি ভাষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেরা কাজের জন্য ধন্য ইম্পাত क मार्का अस्तान २०३५ का मार्का व्यवस्थ

মানৰ সম্পাদ

নর কোম্পানি সর্বদা ভার মানব সম্পদকে সবচেয়ে ওরুতপূর্ণ পদ হিস্তুৰ বিৰেচনা কৰেছে এক বিভিন্ন কৰ্মচারী সুবিধা প্রকল্প পরিচালনা করে অসতে। নিয় বিষয়ক সম্পর্ক ওলি সব সময় সৌহার্দাপূর্ণ এবং অংশাহবমূলক থেকেছে। আমরা ভারতের অনেক শহরে যায়ি চাল করেছি মাতে কামরা আমাদের হিন্দিপাল ও প্রাক্রকদের করেছ সকলে

रू स्टाहर श्रीकार আমি মাননীয় কেন্দ্ৰীয় ইম্পাত মন্ত্ৰী, মাননীয় ইম্পাত প্ৰতিমন্ত্ৰী,

(Beens) অভিরিত্ত সাহিত্য এবং আর্থিক উপসে**টা** (টম্পান্ড), অভিরিত্ত সাচিব ইপ্পাত এবং আবাত ত ব্যাক্ত প্রতিরক্তা মন্তব্দ, করণা মন্তব্দ, বনি মন্তব্দ, বেরমারিক বিমান চলচন, প্রেট্টেলিয়াম, প্রাকৃতিক গলস মন্তব্দের অন্যান অধিকারিকামের প্রতি এবং অন্যান কেওঁল ने नवस्तानं स्था সর্বাবের মছক, সমস্থ রাজ সর্বার, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি থাতের উলোগ, বেসবকারি কোম্পানি, আন্ধার, আমাদের বিশিপালসমূহ এবং অন্যান্যদের প্রতি আমার কডজন্ত জানতে চাই কোম্পানিকে এই বছরবাপী তাদের মূল্যবান সহয়তা এবং নির্দেশিকা প্রশংসন জন্য। আমি সর্বস্তরের বিভিন্ন

কর্মচারীদের মান্তরিক প্রচেষ্টার দরাজ প্রশাস্থা কর্নাছ। এফ্লড়াও আমি সমস্ত মার্নীদার, গ্রাহক এবা সরবরাহকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কারণ খাঁরা পর বছর আমাদের কোম্পানির উপর আছা পোষণ করে আসভেম এবং আপনাদের আশ্বাস দিছি যে আম্বার আনাদের অংশীদারগণের জন্য আরও উন্নত পরিবেশা প্রদান করতে থাকন क्षश डिमा

স্রিন্দর কুমার ওপ্তা চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এমএসটিসি লিমিটেড

(ভারত সরকারের উদ্যোগ)

প্লট নং সিএফ-১৮/২, স্ক্রীট নং ১৭৫, আকশন এরিয়া ১সি. নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ

ফোনঃ ৯১-৩৩-২৩৪০-০০০০ ওয়েবসাইট ঃ www.mstcindia.co.in | www.mstcecommerce.com ਇਕਫ਼ਿੰਗਜ : L27320WB1964GOI026211

থেছেও তা অদক্ষতা হাস করে ও মান শৃত্বলে উপস্থিত প্রত্যেকের জনা উন্নত ওপনান ওম্বলানিশ্চিত করে। কর পরবতী মুনাফা 7,520

लगोद्रशाकांनाचीन न्द्रम

ই অর্থবর্ধবালী সম্মুখীন হওয়া নিজির প্রতিবন্ধবাতার কথা মাধায় রেখে, আমাদের টিনসংকল্প, দৃড়তা ও আদমা আশা নিয়ে নিরুস করে করেছে কোম্পানির অসামান কর্মান্তরকট প্রতিক্লির



